



Date: 03.05.2024

KEI Industries Limited

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2024-25 The Manager. **BSE Limited** Listing Division, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001.

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2024. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 03.05.2024.
- 2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 03.05.2024.


This is for the information of the exchange and the members.

Yours truly, For KEI INDUSTRIES LIMITED

(KISHORE KUNAL) VP (Corporate Finance) & Company Secretary

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd.	The Calcutta Stock Exchange Ltd.
Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1,	The Senior Manager, Listing Division,
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),	7, Lyons Range, Kolkata-700001
Mumbai – 400 051	




Works-III: Chopanki: A-280-284 RIICO Industrial Area (Chopanki) Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); E-mail: chopanki@kei-ind.com

Branch: Mumbai: Nirvan Corporate, 7th Floor, Opposite Aghadi Nagar, Pump House, Jijamata Road, Andheri East, Mumbai-400093; Tel: 91-22-28239673/28375642; E-mail: mumbai@kei-ind.com

: Kolkata:

: Kolkata: Arihanth Benchmark, 4th Floor, 113-F, Matheshwartola Road, Kolkata-7000466; Tele: 033-40620820/40620821; E-mail: kolkata@kei-ind.com
: Chennai: No.04, (Old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2th Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018; Tel: 044-42009120





(A Wholly Owned subsidiary of Bank of Baroda CIN No. U74999MH2017GOI292430 Regd. Office – 5th Floor, Baroda Sun Tower, C – 34, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051

बडौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसज लिमिटेड Baroda Global Shared Services Ltd.

RFP for Empanelment of Insurance Brokers for **BGSSL**

Baroda Global Shared Services Ltd. (BGSSL), 27th Floor, GIFT One Tower, GIFT City, Gandhinagar - 382355 invites Tenders for Empanelment of Insurance Brokers for BGSSL.

Details of the Tender form are available under 'Tender Section' on the BGSSL website: www.bgss.in

"Addendum" if any, shall be issued on the BGSSL website only and the bidder should refer to the same before final submission of the tender. The last date of submission of the above Tenders is 23/05/2024 up to 15:00 Hrs IST.

Place: Gandhinagai Date: 03/05/2024

Head - HR Department **BGSSL**, GIFT City, Gandhinagar Ref - BGSSL/RFP/HR/2024-25/02

LINC LIMITED (Formerly known as Linc Pen & Plastics Limited) CIN: L36991WB1994PLC065583 Regd, Office: Aurora Water Front, 18th Floor, GN 34/1, Salt Lake,

Website: www.linclimited.com, Email: investors@linclimited.com **PUBLIC NOTICE**

Sector-V, Kolkata- 700 091

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 5 and 6 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations"), the Board of Directors of LINC Limited ("Company") at its meeting held on 2nd May, 2024 approved inter alia, a proposal for voluntary delisting of Equity Share from the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE").

Presently, the equity shares of the Company are listed on BSE Limited ('BSE'), Nationa Stock Exchange Limited ('NSE') and the Calcutta Stock exchange Limited (CSE). Since there has been no trading in the equity shares of the Company at the CSE for the last many ears and the Company also incurs extra operational costs of being listed on the CSE therefore, it is being proposed to delist the equity shares of the Company from the CSI only. The delisting from CSE will not be prejudicial to or affect the interest of the investors In terms of Regulation 6 of SEBI Delisting Regulations, the Company has proposed the delisting of its equity shares from the CSE, without giving any exit opportunity to the Equity Shareholders of the Company, as the Equity Shares of the Company will continu to be listed on the BSE and NSE, having nationwide trading terminal.

The Equity Shares of the Company will continue to be listed on the NSE and the BSE

For Linc Limited

Company Secretary and Compliance Office Membership No: A32112



KEI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020 Phone: 91-11-26818840/26818642, Fax: 91-11-26811959/26817225

Web: www.kei-ind.com, E-mail Id: cs@kei-ind.com (CIN: L74899DL1992PLC051527) STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

STANDALONE RESULTS CONSOLIDATED RESULTS Year **Particulars** ended 31.12.2023 ended 31.03.2023 ended 31.03.2024 ended 31.03.2023 ended 31.03.2024 31.03.2024 Audited Un-Audited Audited Audited Audited Audited Audited Total Income from Operations 23,344.33 20,735.27 19,595.89 | 81,530.96 | 69,399.54 | 81,530.96 | 69,399.53 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, 2.024.24 1.844.69 7.812.88 7.812.88 6.420.0 Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax 2,274.37 2,024.24 1,844.69 7.812.88 6,420.48 7,810.83 6,420.07 after Exceptional and/or Extraordinary item Net Profit / (Loss) for the period after tax 1,381.07 4.773.83 5,807.33 1.687.87 1,506.74 5,810.53 4.773.42 (after Exceptional and/or Extraordinary iten Total Comprehensive Income for the perio Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax 1,669.99 1,508.37 1,373.92 5,794.39 4,773.21 5,789.41 4.772.82 and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 180.38 180.48 180.48 180.38 Reserves (excluding Revaluation Reserves) as show 25,709.70 31,302.16 31.302.16 25.711.46 in the Audited Balance Sheet of previous year Earning per share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operation

Notes: I. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone an Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com

www.nseindia.com and also on the Company's website at www.kei-ind.com 2.# Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever applicable.

For KEI Industries Limited

Place of Signing: New Delhi Date: 02.05.2024

Rs. in Lakh

Saniai Kuma

Chairman & Managing Director DIN No.: 06923630

(b) Diluted (in ₹)

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD() Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023. Phone: 011-22900600, Fax: 011-22900699

Website: www.railtel.in; e-mail: cs@railtelindia.com CIN: L64202DL2000GOI107905 EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR

ENDED MARCH 31, 2024

Quarter Ended For the Year Ended **Particulars** 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023

Revenue from Operations	83,270	66,836	69,746	2,56,782	1,95,734				
Other Income	1,910	645	983	5,435	3,730				
Total Income	85,180	67,481	70,729	2,62,217	1,99,464				
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	8,954	9,508	6,569	35,481	25,596				
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	10,193	8,424	10,223	32,809	25,390				
Net profit after tax	7,753	6,214	7,524	24,621	18,825				
Total comprehensive income	7,389	6,267	7,762	24,415	19,035				
Equity share capital	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094				
Other Equity	-	-	-	1,50,630	1,32,794				
Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹ 10/- each)									
(a) Basic (in ₹)	2.42	1.94	2.34	7.67	5.87				

The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 2nd May 2024. The Statutory Auditors of the company have

1.94

2.34

2.42

the Board of Directors at their meeting neid on 2nd may 2024. The statutory Auditors of the Company have conducted audit of the financial results for the Quarter and Year ended 31st March 2024.

2. The information presented in the financial results is extracted from the audited financial results, which have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised

accounting practices and policies to the extent applicable.

accounting practices and policies to the extent applicable.

3. During the year, the company has rationalised the estimate of expected credit loss as per Ind AS-109, which has resulted into reduction of Expected credit loss provision by Rs. 1,505 Lakhs in FY 2023-24.

4. Figures for the previous periods / year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period.

5. The figures of quarter ended 31.03.2024 are the balancing figure between the audited figures in respect of full financial year and published year to date figure upto 3rd Quarter.

6. Merger of RailTel Enterprises Limited (wholly owned subsidiary company):

(1) Pursuant to the Scheme of Amalgamation between erstwhile RailTel Enterprises Limited (REL) with RailTel Corporation of India Ltd. (the Company) under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 sanctioned by Ministry of Corporation Affairs and 31 August 2023 all search and liabilities of Rel. are traceford and verted in the Company with

Corporate Affairs on 31 August, 2023, all assets and liabilities of REL are transferred and vested in the Company with

appointed date of October 1, 2022. (2) The amalgamation has been accounted in the books of account of the company in accordance with IND AS 103

Business Combination' read with Appendix C to IND AS 103 specified u/s 133 of the Act, read with the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. Accordingly, the accounting treatment has been given as follows:

All the asset, liabilities & reserves of REL have been recognised by the company at their carrying amounts
 Inter-Company balances & transactions between REL & RCIL have been eliminated.

 1,00,00,000 equity share of ₹ 10 each fully paid in REL held as investment by the company stands cancelled · Post merger credit balance of Rs. 1239.63 Lakh in Retained Earnings of REL has been transferred to Retained

The financial information in the standalone financial results in respect of prior period have been restated as if business combination had occurred during the preceding period in the standalone financial results as the appointed date of

(3) Pursuant to the scheme of amalgamation, the authorised share capital of REL of Rs. 5000 Lakh has been added to authorised share capital of the company. Paid up share capital of REL of Rs. 1000 Lakh is extinguised (eliminated) with

7. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 o the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates), NSE For and on behalf of RailTel Corporation of India Limited (www.nseindia.com/corporates) and Company's website at www.railtel.in.

Place: New Delhi Date:02.05.2024

Opinion,

PHOTO: SHUTTERSTOCK

Opinion, Monday to **Saturday**

Insight Out

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in



SKILL DRILL: FROM EDUCATION TO EMPLOYMENT

Skill-imparting companies are introducing diverse programmes to train youth for the evolving job market demands

INDIVJAL DHASMANA New Delhi, 2 May

kill-imparting companies and those working in the field of education, aware of the challenges faced by the youth in finding suitable jobs, are coming out with innovative solutions to make undergraduates, graduates, technical hands, and informal workers more employable.

According to data compiled by the Institute for Human Development (IHD) on the basis of the periodic labour force surveys (PLFS), the unemployment rate for graduates and those having higher qualifications has been declining, along with that for lower qualified people (with one exception for below primary level people for 2018-19) since 2017-18 (July-June). However, the rate of decline is faster in the case of the latter. The data is census adjusted.

Though technical education is supposed to make the youth employable, the recent India Employment Report, 2024, prepared by the International Labour Organisation (ILO) and IHD, reveals that graduates with even such skills have a higher unemployment rate than merely bachelor degree holders in India during 2022-23 and the pace of joblessness in this category has increased over 17 years.

However, the former got better quality jobs than the latter. Besides, those with less than graduation degrees see less unemployment rate than witnessed by graduates and higher qualified people, but those iobs are usually low-paid. As such, all kinds of youth workforce face problems in finding the right kind of

Shantanu Rooj, founder and CEO of TeamLease Edtech, the employability wing of TeamLease responsible for upskilling and reskilling at corporate and university levels, says there is a mismatch between what employers expect from higher qualified people and what colleges and universities are preparing them to be. "That is the challenge because of which we $see \, higher \, unemployment \, in \, that \,$ segment than faced by others," he explains.

 $To fill\,this\,gap, Team Lease$ Edtech has started "Work-linked degree programmes" in partnership with universities, colleges, and employers. "We are working with thousands of colleges to provide their students with internships in companies or with professionals. So, students learn practical skill sets while they are still studying," he tells Business Standard.

Eye on the future

When these students pass out, they have theoretical knowledge as well as a fair understanding of practical stuff. They understand what employers are looking for and they

become employable. "Our initiative is a separate

WORRIED YOUTH

Data given in The India Employment Report, 2024, shows the unemployment rate in the case of graduates and those having higher qualifications declined by around 21 per cent during 2017–18 to 2022–23 (July to June).

The rate of fall was around 75 per cent in the case of those having below primary level education, 68.5 per cent for those having primary to middle level of education, and 55 per cent in the case of those having secondary to higher secondary qualifications.

Still, more than one-fourth of the graduates willing to work did not get the required jobs during 2022-23, while joblessness was almost extinct for those having below primary level of education.

In 2022-23, the unemployment rate among youth with a graduate and technical diploma was the highest at 31.1 per cent, closely followed by those with a technical training degree at 29.4 per cent.

The unemployment rate among youths with formal vocational training was significantly higher than among youths with informal vocational training, underscoring that informal training is acquired on

Periodic Labour Force Survey (PLFS) on which the report is mainly based does not capture disguised unemployment or underemployment.

category of degree courses which were launched by the same universities or colleges as one more category," says Rooj.

For instance, Aligarh Muslim University teaches in three formats: Campus college, online platform, and now a work-linked degree programme. In the third category, students either join the university campus or online and visit companies for internship for eight

"These students pass out with three years of work experience. Students also get stipends of Rs 9.000 to Rs 12.000 a month, which takes care of their course fee. These candidates can be immediately put to jobs once they pass out," he says.

TeamLease Edtech has partnered with companies such as Bajaj Auto, Blue Star, SKF, Lotus Herbal, Schneider Electric India, Leadsquared, Link CXO, BeeRoute, and Corizo.

Anish Srikrishna, CEO of TimesPro, the EdTech initiative of the Times Group, says it is crucial that the youth are equipped with the $requisite\,skills\,to\,seize\,opportunities$ as India strides towards a \$5 trillion economy.

He says TimesPro, which offers online courses and certification, is committed to bridging the existing academic gap by providing its learners with competencies aligned with the demands of Industry 4.0.

"We are steadfast in our commitment to delivering excellence in education by imparting cutting-edge skills to our youth through our Higher EdTech

solutions," he points out.

These solutions encompass upskilling initiatives and technical learning for graduates to avail employment opportunities across various sectors including BFSI (banking, financial services and insurance), supply chain and logistics, e-commerce, hospitality, healthcare, and new-age tech, Srikrishna says. The platform offers courses in quantitative finance, sales and service management, logistics and supply chain management, advanced healthcare management, data science, fintech, applied artificial intelligence and

machine learning, among others. Srikrishna points out that the company's technology-driven xecutive education modules ar specifically designed to foster leadership development and ensure that the current workforce remains resilient and prepared to navigate the uncertainties of the VUCA (volatility, uncertainty, complexity,

Akshay Munjal, founder and CEO of Hero Vired which is a Hero group learntech start-up for professionals and higher education aspirants, says the company recognises the expanding skill gap intensified by emerging technologies.

and ambiguity) world.

"To address this, we offer online certification courses in collaboration with top global institutes. Our programmes span data science, technology, finance management and future tech and focus on practical skills and immersive learning experiences," he

Designed for professionals, graduates and government bodies, the courses aim to enhance youth employability and prepare them for the future industry demands, Munial savs.

Hero Vired has collaboration with Massachusetts Institute of Technology (MIT), INSEAD, and University of Chicago

According to

for Human

higher

Development,

unemployment

rate for graduates

and those having

qualifications has

been declining

data by Institute

for these courses. **Growing challenge**

Suchita Dutta, executive director at Indian Staffing Federation (ISF), says India is notably faced with the challenge of a growing number of unemployable youth which also include candidates with technical skills.

the staffing industry, has taken steps to create employability in this demography through employmentlinked skilling programmes conducted by the National Skill Development Corporation (NSDC) under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, along with

ISF, as the representative body of

staffing companies.

These programmes focus on bridging the gap between academia and industry by providing hands-on training, mentorship opportunities, and career guidance to young professionals, she says.

The primary aim of the partnership between ISF and NSDC is to bridge the gap between $theoretical\,knowledge\,and\,practical$ application by providing training $and\, development\, opportunities\, that$ are directly linked to job placements, Dutta elucidates.

"By equipping them (young professionals) with both technical expertise and essential workplace skills, ISF aims to enhance their marketability and help them secure meaningful employment in their respective fields," she says.

Surinder Bhagat, founder and chief executive (CEO) of Gigin, which is a platform to connect informal workers with employ says the platform recognises the concerning trend revealed in the recent India Employment Report 2024, which highlights a growing discrepancy between the skills possessed by young individuals and those demanded by the job market.

This platform provides the facility of job search for workers as well as verification tools for employers. The company is now looking at upskilling informal workers to make them suitable for the job market. It plans to launch this facility in no more than a year,

reveals Bhagat. Pointing out that 90 per cent of the 550 million workforce in India is informal, he says Gigin will partner with offline certification agencies to upskill informal workers -- delivery boys, BFSI workers, nurses, ambulance drivers, chefs, etc.

Then there are some who want to make the youth employers instead of job seekers. For instance, Ahmedabad-based Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) catches even those aged 12 to 16 years to inculcate in them the spirit of employers. It

organises camps for these children as well those aged 16 to 22 to infuse them with such skill-sets. Four similar camps would be organised later this month in Ahmedabad.

"Entrepreneurship acquires meaning beyond just setting up enterprises. Entrepreneurship education, training and mentoring inculcates

traits that make achievers in any field," says Pankaj Bharti, camp leader and associate professor at

He says children and youth need to be introduced to these winning traits during their formative years. "These camps have been modelled around this objective of catching them young to inculcate persuasive qualities in them." Bharti says.

PUBLIC NOTICE

RANI GARG, MY HUSBAND SH RADEEP KUMAR GARG S/C rajendra kumar garg. Deceased ON 17-01-2023. I, RANI GARG REQUESTED SUPERTECH LTD. TO TRANSFER THIS FLAT 510, SOCRATES 2 5TH FLOOR, GREATER NOIDA 201303. UP IN MY NAME. IF ANYONE HAS ANY OBJECTION HE/SHE MAY CONTACT SUPERTECH LTD, CZAR, PLOT NO. GH-02, SECTOR, OMICRON-1, GREATER NOIDA OF THIS NOTICE BEING PUBLISHED.

प्तदुवारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्रों को खो जाने /पुम हो जाने की सूचना दी गई है और कंपनी उनके बदले में डुप्लिकेट प्रमाणपत्र उचित समय पर जारी करने का इरावा रखती है। कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त श्रेयरों पर वैध रागा है उस १६ विशे के भीना कंपनी के

दावा ह, उस 15 दिना पंजीकृत कार्यालय में ऐ	
धारक का नाम	रनेह लता घनश्याम दास
फोलियो नं.	HLL0720190
शेयरों की संख्या (रुपये 10/-F.V)	104
प्रमाणपत्र नं.	205631, 389740, 503695, 684994, 1033963,1460072
विशिष्ट नं.	18413751-18413775 23560708-23560715 5252526-5252535 30791809-30791833

दिनांक: 02 05 202**4**

सार्वजनिक सूचना यूनिट नं. 306, और माप 2000 वर्ग फुट, टॉवर ए, एसएएस टॉवर सेक्टर—38, गुरुग्राम के संबंध में दी जा रही है। यह यूनिट रितु चड्ढा, संजीव चड्ढा की पत्नी, निवासी बी—10, अंसल विलास, सतबाड़ी, नई दिल्ली 110074

उक्त युनिट के संबंध में लीज डीड दिनांक 30 नवंबर, 2012 के मूल दस्तावेज गुम हो गए हैं। उसी के संबंध में, एफआईआर इस संबंध में पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच, दिल्ली को एलआर नं. 1689343 / 2024 दिनांक 01 मई 2024 के तहत दायर की गई थी। एतद्द्वारा सभी संबंधित को **सार्वजनिक सूचना** जारी की गई थी – यदि किसी व्यक्ति ने गलती से या गैर कानूनी तरीके से यूनिट ने. 306 के लिए रितु चड्ढा के पक्ष में ग्लोबल

हैल्थ लिमिटेड द्वारा पंजीकृत वासिक नं. 21764 दिनांक 14 दिसंबर 2012 के तहत रजिस्टर किए गए यूनिट नं. 306, और माप 2000 वर्ग फुट, टॉवर ए, एसएएस टॉवर, सेक्टर—38, गुरुग्राम की मूल लीज डीड का कब्जा ले लियाँ है, तो उसे कंपनी, एस.ए.एस. इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, टॉवर ए व बी, एसएएस टॉवर, सेक्टर 38 गुरुग्राम 122001, टेलीफोन नं. 0124—4679000 ई—मेल sas@sasgroup.in में जमा करा सकता है।

यूको बेंक 👩 UCO Bank

विक्रेताओं को सूची में सम्मिलित करने हेतु निविदा की सूचना

यूको बैंक अंचल कार्यालय मेरठ, अंचल के नियंत्रणाधीन शाखाओं हेतु सीसीटीवी, अलार्म सिस्टम तथा अग्निशामक के संस्थापन तथा रखरखाव के उद्देश्य से प्रतिष्ठित विक्रेताओं को सूची में शामिल करने हेतु बंद लिफाफे मे निविदाएँ आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज मय शर्ते हमारे अंचल कार्यालय और बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। निविदाएँ दिनांक 24 मई 2024 शाम 5 बजे से पहले यूको बैंक, अंचल कार्यालय, मेरठ, कृष्णा प्लाजा, सी-2/6, डी ब्लॉक, गंगानगर, मवाना रोड मेरठ-250001. य पी. पर जमा की जा सकती है।

दिनांकः 03.05.2024 स्थानः मेरठ अंचल प्रमुख

फाम न. 5 माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष 600 ∕ 1, यूनिवर्सिटी रॉड, हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ—226007 दिनांक : 25.04.2024 फॉर्म नं. 5

(क्षेत्राधिकार — उत्तर प्रदेश का भाग) (ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित बैंक व वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 को देय ऋणों की वसूली की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादी को

को, 1. श्रीमती दीप्ति जैन मैसर्स पायल पब्लिकेशन हाउस पंजी. कार्यालय : 517/2 महावीर जी नगर बागपत रोड, भेरठ, उत्तर प्रदेश—250002 **अन्य पता :** म. नं. 298 / ए, प्लॉट नं. 5 पर निर्मित खसरा नं. 1890 के सहित, मोहल्ला—बनवारी वाटिका, भेरठ, उत्तर प्रदेश—250002, **2. श्रीमती दीप्ति जैन** पत्नी पुनीत जैन उम्र लगभग 42 वुर्ष, निवासी: 517 / 2 महावीर जी नगर बागपत रोड, भेरठ, उत्तर प्रदेश—250002 **3. श्रीमती शशि जैन** पत्नी प्रवीण पुत्री महबूब सिंह जैन उम्र लगभग 66 वर्ष निवासी : 517 / 2 महावीर जी नगर बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250002 पैन नं

AEXPJ9441D उक्त वर्णित आवेदन में. आपको सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदक या अपने परामर्शदाता / विधि उक्त वागत आवदन में, आपका सम्मन के प्रकाशन के बाद आवदक या अपने परामशदीता / विधि प्राधिकृत एजेंट को उसकी प्रति देते हुए इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट या कानूनी अभ्यासकर्ता द्वारा दस्तावेजों और हलफनामें (यदि कोई है) के सहित दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में उत्तर देने और **७.5.11.2024 को सुबह 10.30 बजे** प्रदर्शित होने की आवश्यकता है, असफल होने पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा। **रजिस्ट्रार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ** बैक ऑफ़ इंडिया **BOI** 🖈 [नियम **8 (1)] कब्जा सूचना** (अचल संपत्ति के लिए)

दिनांक : 02 05 2024

रोहतक शाखा: गंगा पैलेस कॉम्प्लेक्स, सुभाष रोड, रोहतक, हरियाणा-124001 फोन: 01262-252677, 255344, ई-मेल: rohtak.chandigarah@bankofindia.cp.in

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने **बैंक ऑफ इंडिया** के **प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के तहत निम्न उल्लेखित उधारकर्ताओं/गारंटर को मांग सूचना नीचे दिए गए खाते के विरुद्ध वर्णित दिनांकों पर जारी कि थी और उन्हें उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का आह्वान किया गया।

उधारकर्ता/मालिक/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहा है, एतद् द्वारा उधारकर्ता/मालिक/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम धारा 13 (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न खाते के विरुद्ध वर्णित दिनांकों पर नीचे वर्णित संपत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी हार **बैंक ऑफ इंडिया, रोहतक शाखा** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि त्याभत परिसंपत्तियों को छडाया जा सके।


उधारकर्ता,गारंटर बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की दिनांक		मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	परिसंपत्तियों का विवरण
उधारकर्ता(ओं) : श्रीमती पूनम सैनी पून्नी श्री सचिन सैनी और	29.01.2024	01.05.2024		संपत्ति निहित/स्थित माकन सं. 233/3 (संपत्ति आईडी: 94सी31यू254), वार्ड सं.
श्री सचिन सैनी पत्र श्री भारत	4	\ 00\	` ` ` ` ` ` `	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

त्रा सामन सना पुत्र त्रा भारत। सैनी, दोनों निवासी म.सं. |5, जैन सराय मोहल्ला, सिविल रोड, रोहतक, जिला रोहतक, मापक क्षेत्र 148.66 वर्ग गज रोतक पालिका |233/3, वार्ड सं. 5, जैन सराय |सीमा के मीतर, श्रीमती पूनम सैनी और श्री सचिन सैनी द्वारा स्वामित्व का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग।

स्थान : रोहतक

मोहल्ला, सिविल रोड, रोहतक, जिला रोहतक–124001

Companies, **Insight Out**



Companies, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in





केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-90, ओखला इण्डिस्ट्रयल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली-110 020 फोनः 91-11-26818840/26818642, फैक्स: 91-11-26811959/26817225 वेबसाइट: www.kei-ind.com, ई-मेल आईडी: cs@kei-ind.com

(सीआईएन: L74899DL1992PLC051527)

स्टैंडअलोन परिणाम समेकित परिणाम वार्षिक वार्षिक विवरण समाप्त समाप्त 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.202 31.03.2023 रेखापरीक्षित अ—लेखापरीक्षि नेखापरीक्षित नेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित 20.735.27 9.595.89 81.530.96 69.399.54 81.530.96 रिचालनों से कल आय 23.344.33 69.399.5 शुद्ध लाभ / (हानि) की अवधि के लिए 2,274.37 1,844.69 7,812.88 6,420.48 7,812.88 6,420.07 2,024.24 कर, अपवाद और / या असाधारण मदों से पहले#) शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले की अवधि के लिए 2.274.37 2,024.24 1.844.69 7,812.88 6,420.48 7.810.8 6,420.07 1,687.87 4,773.83 5,807.33 1.506.74 1.381.07 5,810.53 4.773.42 भपवाद और / या असाधारण मदों के बाद#) हुल व्यापक आय अवधि के लिए [शामिल लाम / हानि) अवधि के लिए (कर पश्चात्) और अन्य 1.669.99 1,508.37 1,373.92 5,794.39 4,773.2 5,789.4 4,772.82 व्यापक आय (कर पश्चात)] 180.48 180.48 180.38 180.48 180.38 180.48 180.3 31,302.16 25,709.70 31,302.16 25,711.46

31 मार्च, 2024 का समाप्त चतुर्थ तिमाही और वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जों में प्रस्तुत किए गए स्टैंडअलोन और समेकित चतर्थ / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सिक्षंप्त रूप है। स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित चतुर्थ और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स <u>www.bseindia.com, www.nseindia.com</u> और कंपनी की वेबसाइट <u>www.kei-ind.com</u> पर भी उपलब्ध है। #Ind-AS नियमों / AS नियमों, जो भी लागू हो, के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में अपवाद और / या असाधारण वस्तुओं को समायोजित किया गया।

16 67

15 28

64 28

52 87

18 67

कृते केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (अनिल गुप्ता) चेयरमैन–सह–मैनेजिंग डायरेक्टर

हस्ताक्षर करने का स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 02 मई, 2024

प्रति शेयर अर्जन (₹2/-प्रत्येक का) (चल रहे तथा बंद परिचालनों हेतू)— 1. मूलः

तनकृतः

प्राधिकृत अधिकारी

डीआईएनः 00006422

IndusInd Bank 🕝

सी 201, दूसरा तल, बिजनेस स्क्वेयर सॉलिटेर कारपोरेट पार्क अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093

सार्वजनिक सूचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 के नियम 3(1) के तहत) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के तहत एवजी सूचना

तदद्वारा अधोल्लिखित कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि चूंकि इन्होंने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से ली गई उधारी सुविधा के पुनर्भुगतान ुच्क की है. इनके ऋण खाते आरबीआई दिशा—निर्देशों के अनुसार बैंक की बहियों में अनजंक आरितयों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इसके बाद बैंक ने वित्तीय आरितयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (सरफासी अधिनियम) की घारा 13(2) के तहत उक्त संबंधित कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों पर मांग सूचनाएँ जारी कीं जिसमें उनसे उक्त मांग सूचनाओं में उल्लिखित समस्त बकाया राशि, अधोल्लिखित राशि पर अनुबंधित दर से आगे की ब्याज व प्रासांगिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि को नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित सूचना/ओं की तारीख से 60 दिनों के

अंदर चुकता करने के लिए कहा। हालांकि, उक्त मांग सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (सरफासी नियमावली) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन द्वारा भी दी जा रही है:

कजदार आर सह— कजदार/ ओं के नाम और पते	ऋण खाता सं.	तारीख	भाग सूचना की तारीख	(रु. में) अधोल्लिखत तारीख को	बंधक संपत्तियों का विवरण
सर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रिक एंड मोटर वाइन्डिंग वर्क्स — पने प्रीपराईटर— श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा के माध्यम से कर्जवार) - श्री मनोज कुमार शर्मा - श्री मजेज कुमार शर्मा - श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा - श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा - श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा - श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा - श्री गजुल कुमार (सह-कर्जवार) कान नं. 4. सूर्य नगर, धीली पियाऊ, निकट प्रेम गेस्ट । जस, मधुस, उत्तर प्रदेश—281001। अन्य पताः थी—1, । इल्ल विहार, दिल्ली बाई पास रोड, विजय नगर, । विजयावाद—201001। अन्य पताः मकान नं. 1, चंद्रपूरी,	DAA00 037N & DAA00 099N	05.01.2024			संपत्ति, एरिया माप 334.44 वर्ग मीटर अर्थात 400 वर्ग गज, द्वारा क्रम सं. 3160 दिनांकित 31.03.2004, के समस्त भाग व
ोली पियाऊ, मथुरा, उत्तर प्रदेश—281001 स प्रवटनाय कर्जनाय से बकाया राशि जिसका कि	प्रसन विवय	ग जारी संबंधि	धेन मांग यन	ाना में टिया गया है	, ,

हम एतद्वारा कर्जदार से बकाया राशि जिसका विस्तृत विवरण जारी संबंधित मांग सूचना में दिया गया है, इस पर आगे की व्याज व लागत, प्रमारों, व्ययों आदि सहित इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर हमें चुकता करने के लिए कहते हैं, अन्यथा हम कब्जा लेने और प्रत्यामूत परिसंपत्तियों को बेचने के अधिकार सिंहत पूर्णतः उक्त कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) के हर्ज-खर्चे और जोखिम पर उपर्युक्त प्रत्यामूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

कृपया यह भी नोट करें कि सरफासी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप बिना बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के प्रत्यामूत परिसंपत्तियों को बिकी, पट्टे या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध हैं। आपके द्वारा उक्त धारा का किसी भी प्रकार का उल्लंघन सरफासी अधिनियम की धारा 29 और / या इस संबंध में अन्य किसी कानूनी प्रावधान के तहत दिए दंड प्रावधानों का उपयोग करने योग्य होगा।

कृपया नोट करें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (८) के अनुसार, यदि बिक्री या हस्तांतरण की तिथि से पूर्व किसी भी समय आईबीएल के समस्त बकाया राशि का लागतों, प्रमारों और आईबीएल द्वारा वहन व्ययों सिंहत आईबीएल को भुगतान कर दिया जाता है तो प्रत्यामृत परिसंपत्ति आईबीएल द्वारा बिक्री या इस्तांतरित नहीं की जायेगी और उस प्रत्याभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आईबीएल द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जायेगा

दिनांक: 03.05.2024

हिते इंडसइंड बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

सीआईएनः L30103HR1983PLC026142, वेबसाइटः www.omaxauto.com estors@omaxauto.com, **फोनः** +91–124–4343000, **फैक्सः** +91–124–2580016

	31 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षित					(र लाखों में)			
	समाप्त तिमाडी के लिए समाप्त वर्ष								
	विवरण	31 मार्च,	31 दिसंबर,	31 मार्च,	31 मार्च,	31 मार्च, 2023			
		2024	2023	2023	2024				
		(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)			
	<u>आयः</u>								
I.	प्रचालनों से राजस्व	10,398.96	10,487.61	9,225.62	35,526.27	29,890.20			
II.	अन्य आय	534.43	392.73	443.93	1,768.01	1,483.42			
III.	कुल आय (I+II)	10,933.39	10,880.34	9,669.55	37,294.28	31,373.62			
IV.	<u>व्ययः</u>								
	उपभोग्य सामग्री की लागत	8,074.74	8,405.39	6,356.96	27,343.36	22,387.84			
	तैयार माल और प्रक्रिया में कार्य की								
	इन्वेंट्री में परिवर्ततन	63.66	(120.06)	493.27	(37.67)	414.87			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	680.77	627.65	479.84	2,349.81	2,197.03			
	वित्त लागत	516.09	535.05	485.54	2,080.52	2,387.03			
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	525.78	549.61	562.57	2,177.47	2,320.28			
	अन्य व्यय	691.37	936.24	1,084.36	3,332.73	3,507.63			
	कुल व्यय	10,552.41	10,933.88	9,462.54	37,246.22	33,214.68			
V.	विशिष्ट मदों और कर पूर्व लाम/(हानि)								
	(II+I∨)	380.98	(53.53)	207.01	48.06	(1,841.06)			
VI.	विशिष्ट मद— लाभ	2,250.26	-		2,250.26	-			
VI.	साधारण गतिविधियों से कर पूर्व लाम/(हानि)								
	(IV+V)	2,631.24	(53.53)	207.01	2,298.32	(1,841.06)			
VII.	(1) चालू कर	-	-	-	-	-			
	(2) आस्थगित् कर प्रभार/(क्रेडिट)	972.59	(26.85)	(535.96)	1,131.97	543.35			
	(3) पूर्व वर्ष के कर	-	-	49.42	0.60	49.42			
	कुल कर व्यय	972.59	(26.85)	(486.54)	1,132.57	592.77			
VIII.	अवधि $/$ वर्ष के लिए लाम $/$ (हानि) (\lor I $+ \lor$ II)	1,658.65	(26.68)	693.55	1,165.75	(2,433.83)			
IX.	अन्य समग्र आय () मद जो लाम या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होंगे:—			_					
	(ए) परिभाषित हितलाभ योजना का बीमांकक								
	लाभ / हानि	3.26		(7.15)	3.26	(7.15)			
	(बी) उपर्युक्त पर कर प्रभाव			1.80	(0.82)	1.80			
	कूल अन्य समग्र आय	3.26		(5.35)	2.44	(5.35)			
Χ.	अवधि / वर्ष के लिए कुल समग्र आय	-		(5.55)		(0.00)			
	(VIII+IX)	1,661.91	(26.68)	688.20	1,168.19	(2,439.18)			
XI.	प्रति शेयर अर्जन तिमाही के लिए वार्षिकीकृत नहीं	,	, ,		,	,			
	(ए) बेसिक (₹ में)	7.75	(0.12)	3.24	5.45	(11.38)			
	(बी) डायल्यूटेड (₹ में)	7.75	(0.12)	3.24	5.45	(11.38)			
XII.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी		(/			,,			
	(अंकित मूल्य ₹10 / — प्रति शेयर)	2,138.82	2,138.82	2,138.82	2,138.82	2,138.82			
XIII.	अन्य इक्विटी		-,	.,	-,	26,451,53			

उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा 02 मई, 2024 को आयोजित बैठक में समीक्षा और अनुशंसा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 02 मई, 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

. कंपनी प्राथमिक रूप से विभिन्न ग्राहकों के लिए शीट मेटल कम्पोनेंट के निर्माण और भारत के भौगोलिक क्षेत्र में संलग्न है अँ तद्नुसार कोई पृथक प्रतिवेदनीय प्रचालन या भौगोलिक खंड नहीं है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन आवश्यकत विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.omaxauto.com और बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं एनएसई की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध हैं।

विवरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के परिणाम जो पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और चालू वित्ती वर्ष की तीसरी तिमाही के प्रकाशित ईयर टू डेट आंकड़ों के बीच संतुलनीय आंकड़े हैं, जो लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्ष के तहत थे।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने रु. 2250.26 लाख का विशिष्ट लाभ दर्ज किया, मुख्यतः सुल्तानपुर स्थित जमीन जो कि अधिकता में थी और कंपनी के मुख्य प्रचालनों में संलग्न नहीं थी, की बिक्री से आया।

. कंपनी बोर्ड ने 02 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेत् 10 अंतरिम लाभांश का अनुमोदन किया। कंपनी ने कंपनी की बहियों में वास्तविक मूल्य करने के लिए ऐक्सल शेफ्ट मशीनिंग के लिए खरीदी कुछ आधिक्य मशीनरी

मूल्य को विभिन्न खरीदारों से प्राप्त ऑफरों के आधार पर बाजार में प्राप्त होने योग्य मूल्य से कम किया है। a. समरूपी पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

दिनांकितः 02 मई, 2024

निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए देवाशीष मेहता तविंदर सिंह (प्रबंध निदेशक) (पर्णकालिक निदेशक) (डीआईएन: 07175812)

Coforge कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100DL1992PLC048753

पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019 फोन : 91 (11) 41029297

३१ मार्च, २०२३ को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू. मिलियन में)

समेकित

क्र.	विवरण	तिमाही	पूर्ववर्ती	संगत	वर्ष	वर्ष	तिमाही	पूर्ववर्ती	संगत	वर्ष	वर्ष
सं.		समाप्त	तिमाही	तिमाही	समाप्त	समाप्त	समाप्त	तिमाही	तिमाही	समाप्त	समाप्त
		31.03.2024	समाप्त 31.12.2023	समाप्त 31.03.2023	24 02 2024	24 02 2022	31.03.2024	समाप्त 31.12.2023	समाप्त	31.03.2024	31.03.2023
<u> </u>											
1.	परिचालन से कुल आय	12,248	12,646	11,267	48,489	42,305	23,585	23,233	21,700	91,790	80,146
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर एवं अपवाद मदों से पहले)	3,211	4,292	3,114	10,688	8,748	2,740	2,944	2,069	10,333	10,035
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	3,211	4,292	2,591	10,688	8,225	2,856	2,944	1,546	10,449	9,512
4.	अवधि हेतुँ शुद्ध लाभ, कर पश्चात	2,941	4,100	2,412	9,918	7,325	2,292	2,428	1,167	8,356	7,451
5.	अवधि हेतु कुल सम्मिलित आय	3,128	3,963	2,523	10,184	7,034	2,374	2,612	1,434	8,802	7,767
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	618	618	611	618	611	618	618	611	618	611
7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर)	30,595	28,575	24,907	30,595	24,907	34,742	33,479	30,453	34,742	30,453
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,909	1,784	635	1,909	635	1,909	1,784	635	1,909	635
9.	शुद्ध मूल्य	33,122	30,977	26,153	33,122	26,153	37,269	35,881	31,699	37,269	31,699
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी / बकाया ऋण	3,399	6,160	3,382	3,399	3,382	4,366	9,729	3,382	4,366	3,382
11.	बकाया पुनर्मोच्य अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ऋण इक्विटी अनुपात*	0.10	0.20	0.13	0.10	0.13	0.12	0.27	0.11	0.12	0.11
13.	प्रति शेयर अर्जन (अपवाद मदों के बाद)										
	(अंकित मूल्य रू. 10 / – प्रत्येक) (वार्षिककृत नहीं)										
	1. मूल	47.60	66.55	39.49	161.49	120.12	36.21	38.63	18.80	131.56	113.77
	2. तनुकृत	47.20	65.56	38.76	159.07	117.75	35.90	38.06	18.45	129.59	111.53
14.	पूंजी पुनर्मोचन संचेय	6.00	1.00	6.00	6.00	6.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
15.	ऋणपत्र पुनर्मीचन संचेय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	ऋण भुगतान व्याप्ति अनुपात*	0.53	10.61	0.27	8.02	7.28	0.72	16.11	1.00	15.85	15.52
17.	ब्याज भुगतान व्याप्ति अनुपात*	8.45	10.61	3.45	8.02	7.31	14.53	16.11	16.75	15.85	20.19

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज(जों) की वेबसाइट्स तथा सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट http://www.coforge.com पर उपलब्ध है।

उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा 02 मई, 2024 को आयोजित बैठक में पुनरीक्षित एवं अनुशंसित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, तथा संशोधित नियमावली, 2016 के नियम 3 के तहत निर्धारित अनुसार लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

निदेशक मंडल ने इसके सर्कुलर संकल्प दिनांकित 20 जनवरी, 2024 तथा 12 फरवरी, 2024 क्रमानुसार के माध्यम से श्री अनिल कुमार चानना और श्री दुर्गेश कुमार सिंह को अपर निदेशक तथा गैर—कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, जो कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा 29 मार्च, 2024 को अनुमोदित किया गया है। निदेशक मंडल ने इसके सर्कुलर संकल्प दिनांकित 22 अप्रैल, 2024 के माध्यम से 01 मई की प्रभावी तिथि से श्री ओम प्रकाश भट्ट को अपर निदेशक तथा गैर—कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, जो कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

शेयरधारकों ने 12 अप्रैल, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ("क्यूआईपी") अथवा लागू कानूनों के अनुसार अन्य अनुमत्य मोड्स द्वारा कप्पनी के रू. 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर ("इक्विटी शेयर्स") तथा / अथवा अन्य ग्राह्म प्रतिभूतियों अथवा उनके किसी संयोजन जारी करने द्वारा अधिकतत रू. 32,000 मिलियन कुलयोंग राशि की निधियां जुटाने का अनुमोदन किया है।

कम्पनी ने सिगनिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 54% शेयर अर्जित करने के लिए सिगनिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रवर्तकों तथा चुनिंदा सार्वजिनक शेयरधारकों के साथ शेयर क्रय अनुबंध ("सामूहिक रूप से "शेयर क्रय अनुबंध") निष्पादित किया है जो निश्चयात्मक अनुबंधों तथा कतिपय चिह्नित पूर्व शर्तों के परिपूर्णन के अधीन है। शेयर क्रय अनुबंध का निष्पादन होने पर कम्पनी सेबी (शेयर्स तथा टेकओवर्स का प्रामाणिक अर्जेन) विनियमावली, 2011, यथा संशोधित के निबन्धनों में

अनिवार्य खुली ऑफर भी लागू करेगी। vii) निदेशक मंडल ने 02 मई, 2024 को आयोजित इसकी बैठक में रू. 19 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

viii) अनुपातों के परिकलन में प्रयुक्त सूत्र

ऋण - इक्विटी अनुपात (समय/गुना) [कुल ऋण (चालू एवं गैर-चालू) / कुल योग]

ऋ**ण भुगतान व्याप्ति अनुपात (समय/गुना) [ब्याज**, कर, मूल्यहास तथा ऋणशोधन (अवधि के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि ऋणों पर व्याज व्यय + दीर्घावधि ऋणों तथा अल्पावधि ऋणों के मूल का भुगतान) से पूर्व अर्जन] — अ—वार्षिककृत **ब्याज भुगतान व्याप्ति अनुपात (समय/गुना) [अवधि** के दौरान ब्याज, कर, मूल्यहास तथा ऋणशोधन/चालू और गैर—चालू ऋणों पर ब्याज व्यय) से पूर्व अर्जन] — अ—वार्षिककृत

बोर्ड की आज्ञानसार वास्ते कोफोर्ज लिमिटेड हस्ता / सुधीर सिंह सीईओ ऐंड एग्जीक्युटिव डायरेक्टर DIN: 07080613

तिथि : 02 मई, 2024 स्थान : गुरुग्राम